

विशेष रिपोर्ट

बेस मेटल

अगस्त 2021




तांबा • निकल • लेड • जिंक • एल्युमीनियम




Moneywise. Be wise.

जुलाई 2021 में, फेड की शान्त टिप्पणियों के बाद डॉलर के कमजोर होने के कारण बेस मेटल ने तेजी के रुझान के साथ कारोबार किया। निवेशकों का मानना है कि आसान मौद्रिक नीति के जारी रहने से आर्थिक सुधार और धातु की मांग को बढ़ावा मिलेगी। यूरोपीय सेंट्रल बैंक ने सुस्त मुद्रास्फीति को बढ़ावा देने के लिए पिछले महीने व्याज दरों को रिकॉर्ड निचले स्तर पर रखने का वादा किया है। चीन में भारी बारिश से तांबे और एल्युमीनियम की मांग बढ़ने की उम्मीद बढ़ गई है, जबकि प्रभावित क्षेत्रों में एल्युमीनियम उत्पादन रुकने से भी कीमतों को समर्थन मिला है। तांबा और निकल से लेकर स्टील तक ने इस साल अधिक बढ़त दर्ज की है, आंशिक रूप से इस कारण कि बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण के लिए अमेरिकी सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर खर्च से मांग को बढ़ावा मिलेगा।

अब वर्तमान में बेस मेटल काउंटर दबाव में हैं क्योंकि जुलाई में लगातार दूसरे महीने अमेरिकी मैनुफैक्चरिंग गतिविधि धीमी गति से बढ़ी, जबकि चीन की फ़ैक्ट्री गतिविधि 17 महीनों में सबसे धीमी गति से बढ़ी। शीर्ष उपभोक्ता चीन इस वर्ष 8% से अधिक की बढ़ोतरी की ओर अग्रसर है, लेकिन विश्लेषकों का कहना है कि कोरोनावायरस संकट की शुरुआत के बाद से मांग में वृद्धि अब अधिक हो गई है और आपूर्ति श्रृंखला के बाधित होने और कोविड-19 वेरिएंट के प्रकोप के बीच कम होने का अनुमान है। फैलते हुए डेल्टा संस्करण ने आर्थिक सुधार के बारे में वैश्विक चिंताओं को बढ़ा दिया है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के अधिकारियों ने तीखे बयान दिए हैं।



स्रोत: एसएमसी रिसर्च एवं रॉयटर्स




स्रोत: एसएमसी रिसर्च एवं रॉयटर्स

मेटलडेक्स एमसीएक्स का साप्ताहिक चार्ट



एमसीएक्स प्लेटफॉर्म पर मेटलडेक्स पिछले सप्ताह थोड़ा बढ़कर 15709 पर बंद हुआ है। अब तत्काल रेजिस्टेंस 16100 के आसपास देखा जाता है और सपोर्ट 15400 के आसपास है। यदि कीमत 16100 से ऊपर बनी रहती है तो बहुत जल्द 16400/16700 की ओर तेजी देखी जा सकती है। 15400 से नीचे बने रहने पर 15100-14800 की ओर नीचे की ओर बढ़ सकता है। कुल मिलाकर इंडेक्स के अपने समर्थन स्तर से ऊपर ही रहने की उम्मीद है।

- स्टेनलेस स्टील मिलों और इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी निर्माताओं की ओर ये अच्छी मांग आने वाले महीनों में निकल की कीमतों को मदद मिलने की संभावना है, लेकिन शीर्ष उत्पादक इंडोनेशिया से आपूर्ति बढ़ने से अगले साल कीमतों पर दबाव रहने की संभावना है।
- कनाडा के सडबरी में वेले एसए की निकल खदान में हड़ताली कर्मचारी का प्रतिनिधित्व करने वाला एक संघ चल रहे श्रम विवाद, जिसमें 1 जून को 2,500 श्रमिकों ने अपनी नौकरी छोड़ दी थी, को निपटाने के लिए एक अस्थायी समझौते पर पहुंच गया है।
- इंडोनेशियाई उत्पादन में निरंतर वृद्धि और निकल खपत वृद्धि की गति में संभावित मंदी के कारण 2022/23 में बाजार में अत्यधिक आपूर्ति होनी चाहिए।
- स्टेनलेस स्टील बाजार में निकल की मांग अगस्त में घटने की उम्मीद है, क्योंकि चीन में बिजली कटौती के बीच उत्पादन कम हो जाएगा।
- 2021 की पहली छमाही में 8%-9% निकल युक्त 300-श्रृंखला वाले स्टेनलेस स्टील का उत्पादन पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 36% बढ़ गया है।
- बीएचपी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में माउंट कीथ निकल खदान में अपने माउंट कीथ पर प्रसंस्करण संयंत्र के एक बड़े विस्तार पर निवेश के लिए अंतिम निर्णय करेगा क्योंकि यह बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए बैटरी धातुओं में अधिक निवेश होगा।
- बीएचपी को लगता है कि पर्थ के बाहर उसके नए निकल सल्फेट संयंत्र में इसकी पहले चरण की डिजाइन क्षमता 100,000 टन/वर्ष को पार करने की क्षमता है।



स्रोत: किटको मेटल

एमसीएक्स में निकल का साप्ताहिक चार्ट



स्रोत: रॉयटर्स

एमसीएक्स प्लेटफॉर्म पर निकल वायदा पिछले सप्ताह 1459.20 पर बंद हुआ है। वर्तमान में कीमतें 50 ईएमए स्तर 1420 से और 200 ईएमए स्तर 1350 से ऊपर कारोबार कर रही हैं। साप्ताहिक ऑसिलेटर एमएसीडी 1440 की रेंजिस्टेंस रेखा से ऊपर कारोबार कर रहा है, जो तेजी के रूझान वाले क्रॉसओवर को देख रहा है। काउंटर में खरीदारी फिर से देखी जा सकती है यदि यह 1500 के स्तर से ऊपर कारोबार करना जारी रखता है, जो काउंटर को क्रमशः 1560/1600 की ओर जा सकता है। यदि यह 1420 स्तर से नीचे टूटता है और अल्पावधि आधार में 1380/1350 के स्तर की ओर नीचे की ओर बढ़ सकता है। कुल मिलाकर निकल की कीमतों के अपने सपोर्ट स्तर से और ऊपर जाने की उम्मीद है।

- पिछले महीने एलएमई में लेड की कीमतों में 4.5% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि एमसीएक्स में यह लगभग 1% कम हो गई। एसएचएफई में कीमतें लगभग 1% बढ़ने में सफल रहीं।
- एलएमई-पंजीकृत गोदामों में बैटरी मेटल लेड के कम स्टॉक और एलएमई वारंट और नकद कॉन्ट्रैक्टों की बड़ी होल्डिंग ने धातु की उपलब्धता को लेकर चिंता बढ़ा दी है।
- एलएमई-पंजीकृत गोदामों में 58,850 टन लेड भंडार है जो जुलाई 2019 के बाद सबसे कम है।
- इस साल लेड बैटरियों की वैश्विक मांग बढ़ गई है क्योंकि कोविड-19 महामारी के बाद अधिक कारों सड़कों पर लौट आई हैं। वुड मैकेंजी को उम्मीद है कि रिप्लेसमेंट कार बैटरियों के लिए लेड की मांग 2020 की तुलना में इस वर्ष 5.9% बढ़कर 6.5 मिलियन टन हो जाएगी, जो महामारी से पहले के स्तर पर आ जाएगी।
- मध्य चीनी प्रांत हेनान में घातक बाढ़ के कारण बेस मेटल की आपूर्ति पर अपरिहार्य प्रभाव पड़ेगा।
- बाढ़ प्रभावित प्रांत में चीन की कुल उत्पादन क्षमता का लगभग 36 प्रतिशत प्राथमिक लेड और लगभग 15 प्रतिशत पुनर्नवीनीकरण लेड का उत्पादन होता है।
- वैश्विक स्तर पर लेड की मांग में संयुक्त राज्य अमेरिका की हिस्सेदारी 13% है, लेकिन कोविड-19 लॉकडाउन के अंत तक खपत में वृद्धि हुई है क्योंकि मोटर चालक लेड-एसिड बैटरी को बदलना चाहते हैं जो बिना उपयोग के लंबे समय तक बंद रहने के बाद नष्ट हो गई हैं।



स्रोत: किटका मेटल


एमसीएक्स में लेड का साप्ताहिक चार्ट



स्रोत: रॉयटर्स

एमसीएक्स प्लेटफॉर्म पर लेड वायदा पिछले हफ्ते 176.25 पर बंद हुआ है। वर्तमान में कीमतें 18 दिनों के ईएमए स्तरों 173.52 से ऊपर कारोबार कर रही हैं। मोमेंटम ऑसिलेटर स्टोकेस्टिक (14,3,3) अब सकारात्मक विचलन देख रहा है और छोटी से मध्यम अवधि के लिए तेजी का रुझान भी प्रदान कर रहा है। 50 दिनों का ईएमए उच्च स्तर पर बना हुआ है जो छोटी अवधि के आधार पर खरीदारी का संकेत देता है। इसलिए कुल मिलाकर लेड की कीमतें अपने सपोर्ट स्तरों से ऊपर जाने की उम्मीद कर रही है। अब 182 पर महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस देखा जा रहा है, इस स्तर से ऊपर स्थायी कारोबार करने पर इस महीने में 190/200 की ओर तेजी देखी जा सकती है और यदि कीमतें 168 के स्तर के सपोर्ट स्तर से नीचे बनी रहती हैं तो 164 एवं 160 की ओर क्रमशः नीचे तक जा सकती है।

- एल्युमीनियम की कीमतों में एलएमई और एमसीएक्स पर लगभग 4% की अच्छी बढ़त दर्ज की गई और एसएचएफई में 5.5% से अधिक की बढ़त दर्ज की गई।
- इस साल जुलाई के अंत तक सभी एक्सचेंजों में 26.75% से अधिक बढ़त के साथ, एल्युमीनियम सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला बेस मेटल है, और चीन में मजबूत मांग और बिजली के मुद्दों पर उत्पादन में कटौती के कारण तीन साल के उच्च स्तर पर पहुंच गया है।
- एल्युमीनियम की कीमतें 10 वर्षों के उच्चतम स्तर पर कारोबार कर रही हैं, क्योंकि वैश्विक स्तर पर बीयर के डिब्बे से लेकर पैकेजिंग तक की हर चीज की मांग महामारी के बाद से बढ़ रही है।
- एल्युमीनियम आपूर्ति में बाधाओं से भी लाभान्वित हो रहा है। चीन के युन्नान प्रांत में सूखे के कारण क्षेत्र के जलविद्युत उत्पादन में कटौती की है, जिससे स्थानीय सरकार को एल्युमीनियम स्मेल्टरों से बिजली उपयोग कम करने के लिए कहना पड़ा है।
- चीन में प्राथमिक धातु में उत्पादन वृद्धि ठप हो गई है जबकि बिजली के भूखे स्मेल्टर ऊर्जा दक्षता लक्ष्यों को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। उत्पादक मांग के साथ तालमेल नहीं रख सकते हैं, जिसका अर्थ है कि घरेलू बाजार को पुनर्संतुलित करने के लिए आयात की आवश्यकता है।
- चीन ने जून में 1,54,000 टन प्राथमिक एल्युमीनियम का और आयात किया, जिससे पहली छमाही में कुल आयात 744000 टन हो गया है।



स्रोत: किटको मेटल


एमसीएक्स में एल्युमीनियम का साप्ताहिक चार्ट



स्रोत: रॉयटर्स

एमसीएक्स प्लेटफॉर्म पर एल्युमीनियम वायदा पिछले हफ्ते थोड़ा कम होकर 205.85 पर बंद हुआ। पिछले कुछ महीनों से, कीमतों में बढ़त दर्ज की गई है। अब कीमतें 18 दिनों के मूविंग एवरेज 195.00 से ऊपर कारोबार कर रही हैं। 195 का छोटी से मध्यम अवधि का चैनल रेंजिस्टेंस पहले ही टूट चुका है और अब कीमतें 18 दिनों के मूविंग एवरेज 195 के स्तर से ऊपर है। अब अगला तत्काल रेंजिस्टेंस 210 पर है, और 210 के स्तर से ऊपर बने रहने की स्थिति में 216/223 की ओर अच्छी बढ़त देखी जा सकती है। यदि यह 195 की तत्काल सपोर्ट स्तर से नीचे टूटती है तो यह क्रमशः 190/185 की ओर नीचे की ओर बढ़ सकती है। कुल मिलाकर एल्युमीनियम की कीमतों के अपने सपोर्ट स्तर से और ऊपर जाने की उम्मीद है। इसलिए हम मौजूदा माह में गिरावट पर खरीदारी करने की सलाह देते हैं।

- जुलाई में, एलएमई और एमसीएक्स में जिंक की कीमतों में 3% से अधिक और एसएचएफई में 2% की बढ़ोतरी हुई।
- इस साल के शेष दिनों में सरप्लस में गिरावट, स्मेल्टिंग सहित आपूर्ति में बाधा, चीन की ओर से मांग और विश्व अर्थव्यवस्था में सुधार के कारण वैश्विक बाजार में जिंक की कीमतों में तेजी बरकरार रहने की उम्मीद है।
- अंतरराष्ट्रीय बाजारों में जिंक की मांग बढ़ने की उम्मीद है क्योंकि एशियाई बाजारों और संयुक्त राज्य अमेरिका में आर्थिक आंकड़ों में सुधार की रिपोर्ट के बाद खनन कार्य और रिफाईंड जिंक के उत्पादन में वृद्धि की उम्मीद है।
- चीन में बिजली कटौती के कारण जिंक इंगट की आपूर्ति और सीमित हो गई, जिससे जिंक की कीमतों को समर्थन मिल सकता है।
- इंटरनेशनल लेड एंड जिंक स्टडी ग्रुप के अनुसार 2021 के पहले चार महीनों के दौरान वैश्विक स्तर पर जिंक की मांग की तुलना में आपूर्ति 31,000 टन मीट्रिक टन से अधिक हो गई है। इस अवधि के दौरान, खदानों से जिंक का उत्पादन 11.3% बढ़ा।
- इस बीच, रिफाईंड जिंक उत्पादन में 4.5% की वृद्धि हुई। चीन में 'पर्याप्त वृद्धि' के परिणामस्वरूप जिंक का उपयोग भी 10.1% बढ़ गया। लेकिन में चीन में जिंक कंसेन्ट्रेट के आयात में 9.4% की गिरावट हुई है।



स्रोत: किटको मेटल


एमसीएक्स में जिंक का साप्ताहिक चार्ट



स्रोत: रॉयटर्स

एमसीएक्स प्लेटफॉर्म पर जिंक वायदा पिछले सप्ताह कम होकर 247.50 पर बंद हुआ है। वर्तमान में कीमतें 200 दिनों के ईएमए स्तर 200.00 से ऊपर और साप्ताहिक स्तर पर बढ़ती रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन स्तर 235 से ऊपर कारोबार कर रही हैं। लंबी अवधि में केवल तेजी का रूझान है और हमने देखा है कि पिछले महीने में कीमतों में थोड़ी गिरावट के बावजूद भी 235 से ऊपर बनी हुई है। यदि कीमतें 228 के स्तर से नीचे बनी रहती है, तो नीचे की ओर 213/207 की ओर लुढ़क सकती है और यदि यह 250 के स्तर से ऊपर रहती है और स्थिर बनी रहती है, तो क्रमशः 2627/270 की ओर बढ़ जाएगी।

- तांबे का उपयोग अक्सर वैश्विक आर्थिक स्वास्थ्य के मापक के रूप में किया जाता है। कुछ प्रमुख तांबे की खदानों में हड़ताल की चिंताओं और आसान मौद्रिक नीति के संभावित विस्तार के कारण आर्थिक सुधार और धातुओं की मांग को बढ़ावा देने में मदद मिलने की संभावना से तांबे की कीमतों में 4% से अधिक दर्ज की गई।
- तांबे की कीमतों को हड़ताल की चिंता से कीमतों को समर्थन मिल सकता है। दुनिया में तांबे की सबसे बड़ी खदान चिली की एस्कॉन्डिडा में श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने वाले संघ ने सरकार द्वारा मध्यस्थता की जा रही अनुबंध वार्ता में धीमी प्रगति के कारण अपने सदस्यों को हड़ताल की तैयारी करने का निर्देश दिया है।
- वैश्विक स्तर पर इस वर्ष लगभग 24 मिलियन टन तांबे की आपूर्ति में खदान की हिस्सेदारी लगभग 4.5% है।
- शीर्ष तांबा खनन कंपनी कोडेलको का जून में उत्पादन सालाना आधार पर 14.9% बढ़कर 151,600 टन हो गया, जबकि इसी अवधि में दुनिया की सबसे बड़ी तांबे की खदान इस्कॉन्डिडा में उत्पादन 21.6% कम हो गया है।
- जुलाई में चीन का तांबे का आयात जून की तुलना में 1.0% कम हो गया, जो लगातार चौथे महीने गिरावट है। चीन के सीमा शुल्क आंकड़ों के अनुसार अधिक कीमतों के कारण सरकारी भंडार से तांबे की बिक्री और स्क्रेप धातु के आयात में वृद्धि हुई।
- चीन के सीमा शुल्क आंकड़ों के अनुसार दुनिया के सबसे बड़े तांबा उपभोक्ता चीन में कच्चे तांबे और तांबे के उत्पादों का आयात पिछले महीने 424,280.3 टन हुआ है।
- कच्चे माल की अधिक लागत और खराब मौसम के बीच जुलाई में चीन के तांबे की अधिक इस्तेमाल वाली मैनुफैक्चरिंग और निर्माण क्षेत्रों में गतिविधि धीमी गति से बढ़ी है। सरकार ने कीमतों को कम करने के लिए राज्य के भंडार से 50,000 टन तांबा भी बेचा।



स्रोत: किटको मेटल

एमसीएक्स में तांबा का साप्ताहिक चार्ट



स्रोत: रॉयटर्स

एमसीएक्स प्लेटफॉर्म पर तांबा वायदा पिछले सप्ताह नीचे गिरकर 732.50 पर बंद हुआ है। अब कीमतें 725 के ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस के ऊपर अच्छी तरह से बनी हुई हैं और पिछले महीने से गिरावट हो रही है। अब तत्काल रेजिस्टेंस 748 पर है। यदि कीमतें 748 की तत्काल रेजिस्टेंस से ऊपर बनी रहेगी तो यह 760/780 की ओर बढ़ सकती है और यदि कीमतें 711 के पहले सपोर्ट स्तर से नीचे बनी रहती है, तो निकट भविष्य में नीचे की ओर 695/685 के स्तर की ओर बढ़ सकती है। कुल मिलाकर कमोडिटी के अपने सपोर्ट स्तर से और ऊपर जाने की उम्मीद है।

For any queries, Contact:
 Commodity Research Desk
 Tel: +91-11-30111000, Ext: 683,684,625,630

SMC Research also available on Reuters

E-mail: smc.care@smcindiaonline.com



Corporate Office:
 11/6B, Shanti Chamber,
 Pusa Road, New Delhi - 110005
 Tel: +91-11-30111000
www.smcindiaonline.com

Mumbai Office:
 Lotus Corporate Park, A Wing 401 / 402, 4th Floor,
 Graham Firth Steel Compound, Off Western
 Express Highway, Jay Coach Signal, Goreagon
 (East) Mumbai - 400063
 Tel: 91-22-67341600, Fax: 91-22-67341697

Kolkata Office:
 18, Rabindra Sarani, Poddar Court, Gate No-4,
 5th Floor, Kolkata-700001
 Tel.: 033 6612 7000/033 4058 7000
 Fax: 033 6612 7004/033 4058 7004

एसएमसी ग्लोबल सिम्बोरिटीज लिमिटेड (जिसे एसएमसी कहा जाता है) का नियमन भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा किया जाता है और इसे ब्रोकिंग व्यवसाय, डिपॉजिटरी सेवाएँ और संबंधित सेवाएँ करने का लाइसेंस प्राप्त है। एसएमसी ग्लोबल सिम्बोरिटीज लिमिटेड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, वॉल्वे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड, एमएसईआई (मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड) का रजिस्टर्ड सदस्य है और एम/एस एसएमसी कॉमिट्टेड नेशनल कमोडिटी एवं डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड और मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया और भारत के अन्य कमोडिटी एक्सचेंजों का रजिस्टर्ड सदस्य है। इसकी सहयोगी एसएमसीएक्स स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड को सदस्य है। एसएमसी सीडीएसएल(CDSL) एवं एनएसडीएल(NSDL)के साथ डिपॉजिटरी भागीदार के रूप में भी रजिस्टर्ड है। एसएमसी के अन्य एसोसिएट सेबी और भारतीय रिजर्व बैंक के साथ मंचेंट बैंकर, पोर्टफोलियो मैनेजर के रूप में रजिस्टर्ड है। यह म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में एएमएफआई(AMFI) में भी रजिस्टर्ड है।

एसएमसी ग्लोबल सिम्बोरिटीज लिमिटेड सेबी (रिसर्च एनालिस्ट) रेगुलेशन 2014 के तहत रिसर्च एनालिस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन संख्या INH100001849 के साथ रजिस्टर्ड संस्था है। एसएमसी ग्लोबल सिम्बोरिटीज लिमिटेड या इसके सहयोगियों को सेबी द्वारा अन्य किसी रेगुलेटरी एथॉरिटी द्वारा सिम्बोरिटीज मार्केट/कमोडिटी मार्केट में कारोबार के लिए प्रतिबंधित/निलंबित नहीं किया गया है। रिपोर्ट में रिसर्च एनालिस्टों द्वारा व्यक्त की गई राय केवल सार्वजनिक रूप से प्राप्त सूचनाओं/इंटरनेट आंकड़ों/अन्य विश्वसनीय स्रोतों, जिन्हें सत्य माना जाता है, पर आधारित है। एसएमसी रिपोर्ट में व्यक्त राय या सामग्री की शुद्धता को लेकर कोई आश्वासन नहीं देता है और निवेशकों को सलाह दी जाती है कि निवेश के लिए कोई भी निर्णय करने से पहले बाजार की परिस्थितियों/जोखिमों का स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन करें। रिसर्च एनालिस्ट, जिन्होंने इस रिपोर्ट को तैयार किया है, एल्टर द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि इस रिपोर्ट में विशेष कमोडिटी के संदर्भ में व्यक्त किया गया विचार/राय उनके निजी स्वतंत्र विचार/राय है।

दिसक्लेमर: यह रिसर्च रिपोर्ट अधिकृत प्राप्तकर्ता को व्यक्तिगत सूचना के लिए है और इसका निवेशक के किसी निवेश, विधिक एवं कर संबंधी परामर्श से संबंध नहीं है। यह केवल प्राइवेट सक्कुलेशन एवं उपयोग के लिए है। यह रिपोर्ट विश्वस्त सूचनाओं पर आधारित है लेकिन यह पूरी तरह सही और पूर्ण है, ऐसा जरूरी नहीं और इस पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। रिपोर्ट के कन्टेन्ट के आधार पर कोई कार्य नहीं किया जा सकता है। इस रिपोर्ट को एसएमसी से लिखित आज्ञा के बिना किसी भी रूप में नकल एवं किसी भी अन्य व्यक्ति को पुनः वितरण नहीं किया जाना चाहिए। इस सामग्री का कन्टेन्ट सामान्य है और यह न तो पूरी तरह से व्यापक है और न विस्तृत है। इस रिपोर्ट के आधार पर उठाये गये किसी कदम से होने वाली क्षति या नुकसान के लिए न तो एसएमसी और न इसका कोई संबंधी, सहायक, प्रतिनिधि, डॉयरेक्टर या कर्मचारी को उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए। यह कोई व्यक्तिगत अनुमोदन नहीं करता या किसी खास निवेश उद्देश्य, वित्तीय स्थिति या किसी व्यक्तिगत ग्राहक या कॉरपोरेट या सत्ता को जरूरतों को लेकर नहीं चलता है। सभी निवेश जोखिमपूर्ण होते हैं एवं पिछला प्रदर्शन भविष्य के किसी प्रदर्शन को गारन्टी नहीं देता है। निवेश की वैल्यू और उससे प्राप्त आमदनी एक निश्चित समय में उपलब्ध कुछ बड़े एवं सूक्ष्म कारकों के बदलाव पर निर्भर कर सकती है। निवेश का निर्णय लेते समय किसी भी व्यक्ति को अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए।

कृपया ध्यान रखें कि हम या हमारा कोई अधिकारी, सहायक, प्रतिनिधि, डॉयरेक्टर या कर्मचारी, जो भी इस रिपोर्ट को बनाने या भेजने में शामिल है उसको (अ)समय-समय पर किसी भी कमोडिटीज में, जिनका इस रिपोर्ट में जिक्र किया गया है, खरीद या बिक्री, कोई भी पोजिशन हो सकती है और वह इस कमोडिटीज को खरीद या बिक्री कर सकता है या (ब) साथ ही साथ वह इन कमोडिटीज को किसी भी प्रकार के सौतों में और ब्रोकरेज या अन्य प्रकार के प्रतिकर में अथवा बाजार निर्माण में शामिल हो सकता है, (स) इस रिपोर्ट में दिए गये सुझावों और संबंधित सूचनाओं एवं विचारों के संदर्भ में इनका अपना कोई भी निहित स्वार्थ या विवाद हो सकता है। सभी विवादों का निपटारा अंतिम रूप से दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीन होगा।